

D

(21223)

Roll No. 220290303017

U. G. -III Sem.

NEP-3036

U. G. Examination, Dec. 2023

MAJOR COURSE (UNDER N.E.P.)

COMMERCE

Company Law

[Paper Code : C010301T]

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 75

Note : Attempt questions from all Sections as per instructions.

सभी खण्डों से निर्देशानुसार प्रश्न हल कीजिए ।

Section-A

खण्ड-अ

(Very Short Answer Type Questions)

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

Answer all the *five* questions. Each question carries 3 marks. Very short answer is required not exceeding 75 words. $3 \times 5 = 15$

सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है । अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है ।

1. "Company is an artificial person." Explain.

“कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति है ।” समझाइए ।

2. Explain the meaning of authorised capital and subscribed capital.

अधिकृत पूँजी और अभिदत्त पूँजी का अर्थ समझाइए।

3. What is the limit of borrowing for a company ?

एक कम्पनी को ऋण लेने की क्या सीमा है ?

4. By whom are the first directors of a company appointed ?

कम्पनी के प्रथम संचालकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ?

(4)

5. When can a company be dissolved?

एक कम्पनी का विघटन कब किया जा सकता है ?

Section-B

खण्ड-ब

(Short Answer Type Questions)

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

Answer any *two* questions out of the following

three questions. Each question carries $7\frac{1}{2}$ marks.

Short answer is required not exceeding 200 words. 8.

$$7\frac{1}{2} \times 2 = 15$$

निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर

दीजिए । प्रत्येक प्रश्न $7\frac{1}{2}$ अंकों का है । अधिकतम 200

शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है ।

6. How is a company registered ?

कम्पनी का पंजीकरण किस प्रकार होता है ?

7. What are the consequences on non-registration of a charge ?

प्रभार का पंजीकरण न कराने पर क्या परिणाम होता है?

8. Under what conditions a director can be removed?

निदेशक को किन-किन दशाओं में हटाया जा सकता है ?

10. Who is a member ? What are his rights and liabilities ?

सदस्य कौन होता है ? उसके अधिकार और दायित्व क्या हैं ?

11. Explain the rules regarding Board of Director's meetings.

निदेशक मण्डल की सभाओं के नियमों की व्याख्या कीजिए।

12. Describe the provisions regarding appointment, remuneration and removal of liquidator.

समापक की नियुक्ति, पारिश्रमिक और उसे हटाए जाने के प्रावधानों का वर्णन कीजिए ।

13. What remedies are available to minority shareholders in case of oppression and mismanagement ? Explain.

अल्पमत अंशधारियों को अन्याय और कुप्रबन्ध के विरुद्ध क्या उपचार प्राप्त हैं ? समझाइए ।